

TGL/2024-25/SEC-072

Date: 23-01-2025

To.

The Manager

Department of Corporate Services-Listing

**BSE Limited** 

P J Towers,

Dalal Street, Mumbai-400001.

Sub: Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015 Financial Results approved in the Board -Meeting published in newspaper.

Ref: Triveni Glass Limited (Scrip Code 502281)

This is to inform that the Un -Audited Standalone financial results of the Company for the quarter ended 31-12-2024 approved in Board Meeting held on 22-01-2025 is published in two newspapers i.e. Financial Express and AAJ on 23-01-2025.

#### Thanks & Regards

For Triveni Glass Limited

Tanushree Digitally signed by Tanushree Chatterjee Date: 2025.01.23 12:24:01 +05'30'

Tanushree Chatterjee

**Company Secretary & Compliance Officer** 

Encl.: As per above

#### Regd. Off.:

1, Kanpur Road, Allahabad - 211001, India

Phone : +91-532-2407325 : +91-532-2407450 Fax E-mail : akd@triveniglassltd.com

Website : www.triveniglassltd.com CIN No. : L26101UP1971PLC003491



**FINANCIAL EXPRESS** 

# GOALPOST INDUSTRIES LIMITED Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085

Email id: gulmoharlimited@gmail.com, Tel.:+91-9599919919, Website:www.goalpostltd.ir CIN:L74110DL1982PLC013956

#### NOTICE

### **EXTRA- ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the members of Goalpost Industries Limited ("the Company") will be held on Saturday, February 15, 2025 at 11: 00 A.M at 324A, III Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address electronically to those members who have registered their email address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e Friday January 17,2025. Notice is available on the website of the Company (www.goalpostltd.in)

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("evoting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.goalpostitd.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 12" February, 2025 from 9:00 A.M. and end on Friday 14th February ,2025 at 5:00 P.M. The remote evoting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date(Record date), i.e., Saturday 08th February, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE FOR EGM NOTICE is also hereby given pursuant to applicable provision of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Saturday 08th February, 2025 as the "Record Date" for the purpose of determining the

> For and on behalf of Board Goalpost Industries Limited

Date: 22-01-2025 Place: New Delhi

Kalika Mishra Company Secretary



CIN: L26101UP1971PLC003491 Email: akd@triveniglassltd.com Website: www.triveniglassltd.com

Tel: 0532-2407325 Standalone Statement of Un Audited financial results for the Quarter ended 31st December, 2024

**Rs.in Lakhs** 

	Particulars	For the Quarter	For the Quarter	For the Year		
	r ai ticulai s	ended 31.12.2024	ended 31.12.2023	ended 31.03.2024		
		Un Audited	Un-Audited	Audited		
1.	Total Income from operations	75.19	76.16	456.48		
2.	Net Profit/ (Loss) from ordinary activities before tax	17.90	15.94	287.23		
3.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (before Exceptional items)	17.90	15.94	287.23		
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	17.90	15.94	287.23		
5.	Other Comprehensive Income	-	-	-		
6.	Paid-up equity share capital	1,261.94	1,261.94	4,408.75		
7.	as shown in the balance sheet of previous year)		4,404.00	4,404.00		
8.	Earnings per share (for continued operations)		_	-		
	(a.) Basic	0.14	0.13	2.28		
	(b.) Diluted	0.14	0.13	2.28		
Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the						

Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 duly approved by the Board of Directors in their meeting held on 22.01.2025. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and also on the website of the company (www.triveniglassltd.com). Sd/-

Place: Prayagraj J. K. Agrawal **Managing Director** Date: 22.01.2025



### (... Continued from previous page)

members eligible to vote at the EGM.

### (b) The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (equity / convertible securities).

The price per share of Issuer Company based on secondary sale / acquisition of shares (equity/convertible securities), where promoter / promoter group entities or shareholder(s) selling shares through offer for sale in IPO or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of the Issuer Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of filing of the DRHP/RHP, where either acquisition or sale is equal to or more than 5 per cent of the fully diluted paid-up share capital of the Issuer Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

There have been no secondary sale/acquisitions of Equity Shares or any convertible securities, where our Promoters, members of our Promoter Group or Shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of Directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-Issue capital before such transaction(s) and excluding ESOPs granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling

#### (c) Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price

Type of Transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Share)	Floor Price (₹ 85)*	Cap Price ( 90)*
Weighted average cost of acquisition for last 18 months for primary / new issue of shares (equity/convertible securities), excluding shares issued under ESOP 2018 and issuance of bonus shares, during the 18 months preceding the date of this certificate, where such issuance is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days	32.00	2.66	2.82
Weighted average cost of acquisition for last 18 months for secondary sale / acquisition of shares equity/convertible securities), where our Promoters or Promoter Group entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in our Board are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days	64.00	1.33 times	1.41 times

\*To be updated after finalization of issue price

- (d) Explanation for Issue Price / Cap Price being 90 price of weighted average cost of acquisition of primary issuance price / secondary transaction price of Equity Shares (set out in 5 above) along with our Company's key performance indicators and financial ratios for the period ended on September 30, 2024 and for the Financial Years ended March 31, 2024, 2023 and 2022.
- (e) Explanation for Issue Price / Cap Price being 90 price of weighted average cost of acquisition of primary issuance price / secondary transaction price of Equity Shares (set out in 5 above) in view of the external factors which may have influenced the pricing of the Issue.

Planning and implementation of irrigation projects to enhance physical access of water on farms lies in the domain of the state governments while central government provides technical and financial assistance for the identified irrigation projects to supplement their efforts under its ongoing schemes. The quantum of central grants released

to the states from 2016 to 2023 under different components of PMKSY include:

- Rs. 18,727.78 crore (~US\$ 2.25 billion) under Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), which focuses on the simultaneous implementation of Command Area Development (CAD) and Water Management (WM) initiatives.
- Rs. 4,010.32 crore (~US\$ 481.7 million) under Har Khet Ko Pani initiative, which involves the surface minor irrigation and repair, renovation, and restoration of water
- Rs. 764.89 crore (~US\$ 91.9 million) for the promotion of groundwater development.
- Rs. 18,714.69 crore (US\$ 2.24 billion) under the Per Drop More Crop component, focusing on efficient water usage in agriculture.

■ Rs. 9,559.07 crore (~US\$ 1.15 billion) under the watershed development component, essential for sustainable water resource management.

According to the Economic Survey 2019-20, micro-irrigation had proven to be a technology that gained popularity among farmers in India. A stronger push and appropriate fund allocation towards the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana has helped the government achieve a coverage of 84.45 lakh hectares under the micro irrigation and 10.52 lakh hectares under other interventions (SWMA) during 2015-2023. Additionally, the government has also set up an online portal for the entire process execution and visibility, encouraging more investments by prospective competitors. (Source: https://www.ibef.org/government-schemes/pradhan-mantri-krishi-sinchayee-yojana)

One of the initiatives by the Government of India's Ministry for Heavy Industries & Public Enterprises is SAMARTH Udyog Bharat 4.0, or SAMARTH Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hubs. This is expected to increase competitiveness of the manufacturing sector in the capital goods market. With impetus on developing industrial

corridors and smart cities, the Government aims to ensure holistic development of the nation. The corridors would further assist in integrating, monitoring, and developing a conducive environment for the industrial development and will promote advance practices in manufacturing. (Source: https://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india)

Our company was honoured as one of the "Top 10 Irrigation Equipment Manufacturers - 2024" by Industry Outlook. Since our inception in 2017, we have grown significantly

from starting with just two machines for pipe manufacturing. We now operate 10 production lines with a total installed capacity of 11,500 M.T.P.A. and have expanded our product range to include MDPE, LLDPE, Sprinkler Pipes, and more. We distribute our products to both wholesalers and retailers. Additionally, we supply pipes for government projects through authorised contractors involved in local, state or

federal development scheme. Also, we supply pipes to farmers in terms of farmer welfare policies launched by Central or State Government. We have a dedicated in-house testing facility to ensure our products adhere to stringent quality standards. Additionally, in case of supply to any government project or under some welfare policy to farmers, we are required to get our products test from third part laboratories. These agencies include the Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), SGS, Bureau Veritas, Dr. Amin Controllers Pvt. Ltd., Rail India Technical and Economic Service, and Certification Engineers International Limited (CEIL). This verification process is a mandatory requirement set by the government.

Our pipes are engineered to meet a wide range of applications, including irrigation, potable water supply, sewerage, and drainage systems. They are also well-suited for boreholes and tube wells for underground water extraction. Furthermore, our pipes support infrastructure projects such as the installation of long-distance electrical cables

The Issue Price is [●] times of the Face Value of the Equity Shares.

The Issue Price of ₹ [•] has been determined by our Company in consultation with the BRLMs, on the basis of market demand from investors for Equity Shares, as determined through the Book Building Process, and is justified in view of the above qualitative and quantitative parameters. Investors should read the above-mentioned information along with "Risk Factors", "Business Overview", "Management Discussion and Analysis of Financial Position and Results of Operations" and "Restated Financial Information" on pages 21, 92, 190 and 147, respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the "Risk Factors" and you may lose all or part of your investments.

### BID/ISSUE **PROGRAMME**

# ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: TUESDAY, JANUARY 28, 2025\*

BID/ISSUE OPENS ON: WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025

BID/ISSUE CLOSES ON: FRIDAY, JANUARY 31, 2025# 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for

\* Our, in consultation with the BRLMs, may consider participation by Anchor Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/Company Offer Opening Date.

#UPI mandate end time and date shall be at 5.00 pm on Bid / Issue Closing Date on Friday, January 31, 2025#.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid /Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 10.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), Further, 5.00% of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than

allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page 248 of the RHP. Bidders / Applicants should ensure that DP ID, PAN and Client ID and UPI ID (for RIBs bidding through the UPI mechanism) are correctly filled in the Bid cum

Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidder/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

## ASBA\*

Simple, safe, smart way of Application!!!!

\*Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. Mandatory in Public offers. No cheque will be accepted.

UPI-Now available in ASBA for all individual investors applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000 applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. UPI-Now mandatory in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs") applying through Registered Brokers, DPs & RTA. RIBs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021

\*ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form & abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 248 of the RHP. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchange in the General information Document. ASBA Forms can be downloaded from the BSE Limited ("BSE") and can be obtained from the list of banks that is displaying on website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the issue in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in

229 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 125 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 295 of the RHP.

**LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY:** The Liability of the members of the Company is Limited AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital of the Company is 12,00,00,000/- consisting of 1,20,00,000 Equity shares of ₹ 10/- each. The issued, subscribed, and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 7,89,75,000 divided into 78,97,500 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, see chapter titled "Capital Structure" beginning on page 53 of the RHP.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Harsh Malpani –5000 Equity Shares, Mohit Malpani - 5000 Equity Shares aggregating to 10,000 Equity Shares of ₹ 10 each. LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated December 24, 2024, from BSE for using its name in the Offer

Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE"). DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the issue is being made in terms of chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 226 of the Red Herring Prospectus. **DISCLAIMER CLAUSE OF BSE:** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed of construed that the Offer Document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page

GENERAL RISK: Investments in Equity and Equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the RHP.

Place: Ratlam

**Date:** January 23, 2025

### **BOOK RUNNING LEAD MANAGERS** INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Address: Office No. 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Ahmedabad-380 015, Gujarat, India **Telephone.**: 079 4908 8019 | **Mobile**: +91-9898055647 | **Web Site**: www.ifinservices.in

Email: mbd@ifinservices.in | Investor Grievance Email: info@ifinservices.in

Contact Person: Mr. Pradip Sandhir

**SEBI Reg. No.:** INM000012856 | **CIN:** L65910GJ1994PLC023393

### **REGISTRAR TO THE ISSUE BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED**

Address: Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre. Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093

**Tel No.**: 022-62638200 | **Fax**: 022-62638299 | **Website**: www.bigshareonline.com E-Mail: ipo@bigshareonline.com | Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Vinayak Morbale

**SEBI Reg. No.:** INR000001385 | **CIN:** U99999MH1994PTC076534

**COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Hariom Patidar** MALPANI PIPES AND FITTINGS LIMITED

> Registered Office: 65-A, Sector B Industrial Area, Ratlam- 457001, Madhya Pradesh, India | **Mobile No:** 07412-260707 Website: www.malpanipipes.com | E-mail: pipes@malpanipipes.com

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

**AVAILABILITY OF RHP:** Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus shall be available at the website of Stock Exchange www.bseindia.com, the website of Book Running Lead Managers www.ifinservices.in and from the Registered Office of the Company.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Malpani Pipes And Fittings Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: 079 4908 8019), Syndicate Member: MNM Stock Broking Private Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: 079 4908 8019), Syndicate Member: MNM Stock Broking Private Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: 079 4908 8019), Syndicate Member: MNM Stock Broking Private Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: 079 4908 8019), Syndicate Member: MNM Stock Broking Private Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: 079 4908 8019), Syndicate Member: MNM Stock Broking Private Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: 079 4908 8019), Syndicate Member: MNM Stock Broking Private Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: 07412-260707) BRLM: Interactive Financial 079-26464676; (M): 7069022321), Registered Brokers, RTA and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of, BSE Limited (www.bseindia.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

**SYNDICATE MEMBER:** MNM Stock Broking Private Limited BANKERS TO THE ISSUE/SPONSOR BANK/ESCROW COLLECTION BANK/PUBLIC ISSUE BANK/REFUND BANK: ICICI Bank Limited

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For MALPANI PIPES AND FITTINGS LIMITED On Behalf of the Board of Directors Rohit Malpani **Managing Director** 

DIN: 08671175 MALPANI PIPES AND FITTINGS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with Registrar of Companies, Gwalior on January 21, 2025

The RHP shall be available on the website of the BRLMs to the issue at www.ifinservices.in and websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 21 of the RHP. Potential investors should not rely on the RHP for making any investment decision. The Equity Shares offered in the issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a

transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

financialexp.epapr.in

Lucknow

महानगर

से लेकर गाड़ी तक भैजने की व्यवस्था, कामख्या ३० जनवरी, १२८०२ नई दिल्ली पूरी ३० जनवरी.

यात्रियों को टिकट काउंटर पर भेजना. १२३९८ नई दिल्ली गया ३० जनवरी, २०९६ १ उधाना

बनारस २८ जनवरी, १२४२८ आनंद विहार ट. रीवा २८ जनवरी

और ट्रेन नंबर १२३६८ नई दिल्ली भागलपुर ३० जनवरी को

दिल्ली २८ जनवरी, १५६३४ गुवाहाटी बीकानेर २५ जनवरी एवं

ट्रेन नंबर १२९४२ आसनसोल भावनगर ३० जनवरी को निरस्त

रहेगी। इसी क्रम में प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी निरस्तीकरण की

तिथि डाउन टेनों में १५६५७ दिल्ली कामख्या ०४ फरवरी.

१२८०२ नई दिल्ली पुरी ०४ फरवरी, १२३९८ नई दिल्ली गया

# रल राज्यमत्राने प्रयागराज जक्शनपर महाकुंभकी व्यवस्थाओंको परखा

केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति वी. सोमन्ना ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर महाकुंभ-२०२५ के लिए किए गए व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेन्द्र चंद्र जोशी एवं मण्डल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी भी साथ मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री. रेल एवं जल शक्ति वी सोमन्ना ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर मेडिकल आब्जर्वेशन कक्ष, यात्री आश्रय एवं मेला टावर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यात्री आश्रय में श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर उनका हालचाल की। रेलराज्यमंत्री ने निरीक्षण के उपरांत सरकार एवं केंद्र सरकार के डबल इंजन मेला टावर में आयोजित प्रेस वार्ता में ने अभूतपूर्व सुविधाएं उपलब्ध करायी मेला में ७००० गाडियों का संचालन मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। है। विश्व स्तर का यह भव्य आयोजन किया गया था। प्रयागराज जंक्शन पर प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमन्त्री के कुशल निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री, संबोधित करते हुये कहा कि मकर नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, जिसके संक्रांति पर्व पर रिकार्ड १४८ विशेष लिए पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर यात्री हितों की दिशा में किए जा रहे रेस्पांस टीम और फायर फाईटिंग टीम के टेनें चलाई गयी। मौनी अमावस्या के रहा है। उन्होंने रेल की अभातपूर्व दिन १५० से अधिक विशेष टेनें चलाने व्यवस्था के लिए रेल मंत्री अश्विनी की योजना है एवं मौनी अमावस्या पर वैष्णव को भी धन्यवाद दिया। मीडिया ०१ दिन पूर्व से ०२ दिन बाद तक के द्वारा कर्नाटक के सबसे बडे उत्सव कुल ४०० से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्रीने यात्री आश्रयोंमें कलर जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति ने कहा कंभ विशेष टेनें चलाने के लिए करीब कि कर्नाटक में दशहरा एक दिन का २०० रेक उपलब्ध कराए गए है। होता है और यहां दशहरा हर दिन महाकुंभ-२०२५ के दौरान बेहतर मनाया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री. व्यवस्थाओं के लिए अन्य क्षेत्रीय रेलवे रेल एवं जल शक्ति ने कहा कि स्टेशनों से १०.००० से अधिक कर्मचारियों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए को तैनात किया गया है एवं स्टेशनों गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय पर करीब १०,००० राजकीय रेलवे रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ एवं

जनसंपर्क अधिकारी शशीकांत त्रिपाठी

के अनुसार ट्रेनों के निरस्तीकरण के

क्रम में ट्रेन नंबर ६४१७१/६४१७२

कानपर सेन्टल-ब्रम्हवर्त- कानपुर

चलेंगी मेला स्पेशल गाडियां दिव्य-भव्य महाकुम्भ २०२५ में प्रयागराज आकर संगम स्नान करने वाले



इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग कार्यसे एक जोड़ी ट्रेन रद, छह आंशिक रूपसे निरस्त

यात्रियों को टिकट उपलब्ध करवाना. गाडियों की जानकारी देना, भीड को नियंत्रित करना, यात्रियों के प्रेटफॉर्म निरस्त रहेगी। अप ट्रेनों में २२३०७ हावडा बीकानेर ३० जनवरी. पर पहुँचने पर उन्हें सुरक्षित रूप से १२८१५ पुरी आनंद विहार ट. २७ जनवरी, १२५०५ कामख्या गाड़ी के अंदर भेजना और गाड़ी में आनंद विहार ट. २७ जनवरी, १२४८७ जोगबनी आनंद विहार पर्याप्त यात्री हो जाने पर गार्डी को ट. ३० जनवरी, १२३११ हावड़ा कालका २६ जनवरी, १८३०९ प्रस्थान करवाने के लिए प्रेटफार्म से संबलपुर जम्मू तवी २५ जनवरी, १५४८३अलीपर द्वार जं. दिल्ली कंट्रोल टावर को सचना भेजना और २७ जनवरी, २२४६५ मधुपुर आनंद विहार ट. ३० जनवरी, अन्य विभागों से समन्वय की १२३९७ गया नई दिल्ली २८ जनवरी, १२३६७ भागलपर नई कार्यप्रणाली पर भी जानकारी ली और इस दिशावार व्यवस्था की तारीफ की। प्रयागराज जंक्शनकी सुरक्षा प्रणाली भी जानी केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति,

वी. सोमन्ना ने प्रयागराज जंक्शन की सुरक्षा प्रणाली और आपात स्थिति के लिए की गई तैयारियों की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान रैपिड एक्शन टीम एवं क्विक कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी कार्यप्रणाली को परखा. और बेहतर कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिये। वी. सोमन्ना ने निरीक्षण के अगले क्रम में १८ स्क्रीन से सुसज्जित सीसीटीवी कक्ष यक्त मेला टॉवर का निरीक्षण किया। मेला

जानकारी के साथ स्टेशन पर यात्रियों

को दिशावार यात्रानुसार गेट से प्रवेश

चिकत्सा बूथ, जन सुविधाएँ, सुरक्षा समन्वय और त्वरित कार्यप्रणाली के लिए ०३२२० पटना - प्रयागराज -पटना कुंभ एक्स्प्रेस स्पेशल का अप और डाउन में धीना स्टेशन पर दो मिनट रुकेगी। -२०२५ के दौरान स्टेशन पर यात्रियों गोरखपुरसे झूंसीके लिए चलेगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन

निरस्तीकरण, आंशिक निरस्तीकरण/ रहेगी। ट्रेनों के नियंत्रण/रीशेड्यूलिंग के १९६७० पाटलिपुत्र-उदयपुर सिटी २३ ०१,०२,०३ एवं ०४ फरवरी, २०२५ श्रेणी का ०१ तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनामी के को तथा झूंसी से २८, २९, ३०, ३१ ०७ कोचों सहित कुल २२ कोच लगाये जायेंगे। जनवरी, ०२, ०३ ०४ एवं ०५ फरवरी, २५ को एक घंटे देरीसे झुंसीके लिए चलेगी ट्रेन २०२५ को ०८ फेरों के लिये किया जायेगा। ०५००४ गोरखपुर-झूसी कुम्भ मेला विशेष गाड़ी २७, २८, २९, ३० की अतिरिक्त सुविधा के लिए ०५१०४/०५१०३ गोरखपुर-रेल प्रशासन द्वारा नयी दिल्ली- को उत्तर मध्य रेलवे में ३० मिनट जनवरी,०१,०२,०३ एवं०४ फरवरी, झूंसी-गोरखपुर कुम्भ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन गोरखपुर २०२५ को गोरखपुर से २१.३० बर्ज से २५ जनवरी को तथा झूंसी से २६ जनवरी को ०१ फेरे के प्रस्थान कर चौरी चौरा से २२.१० बजे, लिये किया जायेगा। ०५१०४ गोरखपुर-झुसी कुम्भ मेला गौरी बाजार से २२.२६ बजे, देवरियां स्पेशल ट्रेन २५ जनवरी को गोरखपुर से ०१ घंटा पुनर्निर्धारित

> बजे, सलेमपुर से २३.५० बजे, दुसरे एनएसएस इकाइयोंने चलाया सडक सरक्षा अभियान एसएस खन्ना महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। अतरसुइया थाना के सब इंस्पेक्टर अंकित कन्नौजिया ने अपने व्याख्यान में सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों से स्वयंसेविकाओं को परिचित कराया। महाविद्यालय की चारों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी डा.प्रियंका गुप्ता, डा.सुगंध वौधरी, डा.रश्मि सिंह, डा.पार्थ डे ने सहयोग किया। इस दौरान पुलिस विभाग के गौरव कुमार, अजय कुमार चौरसिया, आकाश शर्मा, अनीस फातिम ने अभियान में सहयोग किया। अतिथियों का स्वागत डा.प्रियंका गुप्ता, संचालन डा.रश्मि ०४ एवं ०५ फरवरी, २०२५ को झूंसी सिंह एवं आभार डा.सुगंध कुमार चौधरी ने किया।

> संगम स्नान करने पहुंचा श्रद्धालु बेहोश मऊ से १२.५० बजे, बेलथरा रोड से होश में लाया गया। अब उनकी स्थित स्थिर हो गयी है।

०४ फरवरी, १२४२८ आनंद विहार ट. रीवा ०२ फरवरी और ट्रेन नंबर १२३६८ नई दिल्ली भागलपुर ०४ फरवरी और अप ट्रेनों में ट्रेन नंबर १२३०७ हावड़ा जोधपुर ०४ फरवरी, १२५०५ कामख्या आनंद विहार ट. ०१ फरवरी, ट्रेन नंबर १२३११ हावडा कालका ३१ जनवरी, १५४८३ अलीपुर द्वार जं. दिल्ली ०१ फरवरी, ट्रेन नंबर १२३९७ गया नई दिल्ली ०२ फरवरी और ट्रेन नंबर १२३६७ भागलपुर नई दिल्ली ०२ फरवरी को निरस्त रहेगी। धीना स्टेशनपर एक जोडी ट्रेनका ठहराव रेल प्रशासन द्वारा महाकुम्भ-२०२५ के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व सूचित ट्रेन नंबर ०३२१९/०३२२० पटना-प्रयागराज कुम्भ स्पेशल ट्रेन का धीना स्टेशन पर ठहराव यात्री आश्रयों में कलर कोडिंग, टावर में तैनात कर्मचारियों से सीसीटीवी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य साइनेज, खानपान, प्रकाश, पेयजल, के विषय में जानकारी ली और बेहतर जनसंपर्क अधिकारी शशीकांत त्रिपाठी के अनुसार ०३२९९/

रेलवे प्रशासन द्वारा महाकुम्भ मेला १३.३१ बजे, सलेमपुर से १३.५२ बजे, भटनी से १४.२२ के अवसर पर श्रद्धाल यात्रियों की बजे, देवरिया सदर से १४.५५ बजे, गौरी बाजार से १५.३० अतिरिक्त सुविधा के लिए ०५००४/ बजे तथा चौरी चौरा से १५.४६ बजे छूटकर गोरखपुर ०५००३ गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर १६.२५ बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान कुम्भ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन का ०१, एलएसएलआरडी का ०१, शयनयान श्रेणी के गोरखपर से २७, २८, २९, ३० जनवरी, ०७, साधारण द्वितीय श्रेणी के ०५, वातानुकुलित द्वितीय

रेलवे प्रशासन द्वारा महाकुम्भ मेला पर श्रद्धाल यात्रियों सदर से २३.०० बजे, भटनी से २३.२८ कर २०.३० बजे के स्थान पर २१.३० बजे चलायी जायेगी।

खास से ०८.२८ बजे, ज्ञानपुर रोड से केमहाकुंभ क्षेत्र के संगम नोज़ पर स्नान करने दिल्ली से आये प्रदीप शर्मा (६९) श्रद्धाल अचानक बहोश हो गए। उनकी दो दिन पूर्व ही से १०.२० बजे, वाराणसी सिटी से डायलिसिस हुई थी। घटना क्षेत्र में मौजुद चिकित्सा विभाग की ११.०० बजे औडिहार से ११.४० बजे, एम्बुलेंस में डा.वर्तिका सिंह एवं टीम द्वारा चिकित्सा सेवा देकर उनको



01806

#### महाक्रुम्भ मेला २०२५ के दौरान मेला विशेष रेलगाड़ियों का संचालन

त्रिपाठी के अनुसार डाउन ट्रेनों में ट्रेन नंबर १५६५७ दिल्ली | भारतीय रेल द्वारा मेले में आने वाले अपने सम्मानित श्रद्धालुऑ/रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये विभिन्न मेला विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में समय-सारणीबद्ध निम्न रिंग रेल सेवा सहित आरक्षित, अनारक्षित मेला विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य मेला विशेष रेलगाडियों का संचालन आवश्यकतानसार किया जायेगा।

#### दिनांक 23.01.2025 (गुरुवार) को चलने वाली समय-सारणीयबद्ध मेला विशेष रेलगाड़ियों की सूची:-

गाड़ा सं.	स्टेशन से	का समय	स्टेशन तक	का समय	पर ठहराव	
	अन	ारक्षित	रिंग रेल रं	वा रेल	गाड़ियों की सूची	
04111	प्रयागराज जं.	06:00	प्रयागराज जं.	18:50	प्रयागराज् रामबाग्, झूँसी, हण्डिया खार	
04112	प्रयागराज जं.	06:30	प्रयागराज जं.	21:00	ज्ञानपुर रोड, माधोसिंह, बनारस, भदोही, जंघई, मड़ियाहू, ज़फराबाद, जौनपुर,	
04113	प्रयागराज जं.	17:30	प्रयागराज जं.	07:45	शाहगंज, अकबरपुर, गोसाईगंज, अयोध्या, अयोध्या केंट, सुल्तानपुर, माँ	
04114	प्रयागराज जं.	17:45	प्रयागराज जं.	08:00	बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, मऊआइमा, फाफामऊ एवं प्रयाग	
04109	गोविन्दपुरी	15:45	गोविन्दपुरी	07:00	बिन्दकी रोड, फतेहपुर, खागा, सिराथू, भरवारी, प्रयागराज जं., नैनी, शंकरगढ़, बारगढ़ रोड, डभौरा, मानिकपुर, चित्रकूट	
04110	गोविन्दपुरी	07:30	गोविन्दपुरी	21:30	धाम कर्वी, अतर्रा, बाँदा, रागौल, भरूआ सुमेरपुर, हमीरपुर रोड, घाटमपुर एवं भीगसेन	
01803	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	12:00	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	09:00	चिरगाँव, मोठ, एट, उरई, काल पुखरायां, भीमसेन, बिन्दकी रोड, फतेह खागा, सिराथू, भरवारी, प्रयागराज	
01804	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	20:10	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	16:30	नैनी जं., शंकरगढ़, बरगढ़, डमौरा, मानिकपुर, चित्रकूट धाम कर्वी, अतर्रा, बाँदा, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर, मऊरानीपुर, निवाड़ी एवं ओरछा	

आरक्षित रिंग रेल सेवा रेलगाड़ियों की सूची शनीचरा, मालनपुर, गोहद रोड, सोनी भिंड, इटावा, भरथना, फफूंद, झींझक, 20:10 प्रयागराज जं. ग्वालियर 06:40 रूरा, पनकी धाम, गोविन्पुरी, बिन्दकी

					रोड, फतेहपुर, खागा, सिराधू एवं भरवारी	
उत्त	र मध्य रेलवे र	ते चलने	।/गुजरने वाली	आरक्षि	त मेला विशेष रेलगाड़ियों की सूची	
04145	सूबेदारगंज	21:35	दिल्ली जं.	08:55	फतेहपुर, गोविन्दपुरी, इटावा एवं टूण्डला	
08314	टिटिलागढ़	17:00	टूण्डला	02:30	मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविन्दपुरी एवं इटावा	
07380	टूण्डला	16:00	हुब्बल्लि	18:40	इटावा, गोविन्दपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज एवं मानिकपुर	
03023	हावड़ा	00:30	टूण्डला	02:30	8-5	
03024	टूण्डला	11:20	हावड़ा	15:20	मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, फतेहपुर,	
03029	हावड़ा	19:35	टूण्डला	20:15	गोविन्दपुरी एवं इटावा	
09556	बनारस	19:30	भावनगर टर्मि.	05:00	प्रयागराज, फतेहपुर,	
09421	साबरमती	10:25	बनारस	14:45	गोविन्दुपरी, इटावा, टूण्डला एवं आगरा फोर्ट	
09404	जंघई	08:30	अहमदाबाद	18:00	टूण्डला एवं आगरा फोर्ट	
09372	बलिया	23:45	डॉ. अम्बेडकर नगर	05:30	चुनार, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविन्दपुरी, उरई एवं वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	
07021	सिकंदराबाद	08:45	दानापुर	16:50	प्रयागराज छिवकी	
09018	गया	22:00	वापी	10:00		
08530	विशाखापट्टणम	17:35	पं. दीनदयाल उपाध्याय	04:30	चुनार,	
06006	गया	23:55	कन्याकुमारी	03:50	मिर्ज़ापुर,	
01661	रानी कमलापति	11:10	बनारस	10:15	प्रयागराज छिवकी एवं मानिकपुर	
01034	मऊ	23:50	छत्र. शिवाजी महाराज टर्मि.	14:30		
06579	बेंगलुरु	13:00	बनारस	13:30	मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी एवं मिर्ज़ापुर	

नोट : रेल यात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त रेलगाढ़ियों की समय-सारणी, संरचना एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव से संबंधित जानकारी हेतु हेट्यलाइन नं 139, एनटीईएस ऐप रेल मदद वेबसाईट

© 1800 4199 13°9 🕻 🛍 IIII उत्तर मध्य रेलवे IIII

 $\oplus$ 

एसडीआरएफ मिलकर कार्य कर रहे टेनें चलायी जाएंगी जबिक गत कुम्भ रेल एवं जल शक्ति ने यात्री सेवा एवं सभी रेल कायीं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिये।

# कोडिंगका भी किया निरीक्षण

व्यवस्था को बारीकी से देखा। महाकुंभ आवश्यक निर्देश दिये।

#### रेल प्रशासन द्वारा फर्रुखाबाद-कानपुर) बर्राजपुर-कानपुर अनवरगंज के मध्य १४११७ प्रयागराज-भिवानी २४ जनवरी अनवरगंज खंड में चौबेपर स्टेशन पर निरस्त, ५५३४७ कानपुर अनवरगंज- प्रयागराज से १५० मिनट रीशेड्यूल, इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग की स्थापना फर्रुखाबाद २४ जनवरी बर्राजपुर कानपुर १२३१९ कोलकाता-आगरा केंट २२

के कार्य के लिए कई टेनों का अनवरगंज-बर्राजपुर के मध्य निरस्त जनवरी रावतपुर पर १५ मिनट नियंत्रित, आंशिक ओरिजिनेशन एवं नियंत्रण/ क्रम में ५४१५६ फर्रुखाबाद-कानपुर जनवरी रावतपुर पर ३५ मिनट नियंत्रित. रीशेड्यूलिंग करने का निर्णय लिया अनवरगंज तत्काल प्रभाव से २४ जनवरी ५५३४६ कासगंज-लखनऊ २४ जनवरी गया है। उत्तर मध्य रेलवे के मख्य तक फर्रुखाबाद से १३५ मिनट रीशेड्यूल, बर्राजपुर पर ४० मिनट नियंत्रित रहेगी।

## ट्रैफिक ब्लाकके कारण एक जोड़ी ट्रेन रद, तीनको किया नियंत्रित

गाजियाबाद-चिपियाना बुजुर्ग खंड में नियंत्रित का चलाई जाएगी। सेन्ट्रल तत्काल प्रभाव से २४ जनवरी निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लाक तक रद रहेगी। ट्रेनों के आशिक के कारण एक जोड़ी ट्रेन का निरस्तीकरण/आंशिक ओरिजिनेशन के निरस्तीकरण एवं तीन ट्रेनों का नियंत्रण क्रम में ट्रेन नंबर ५५३४८ फर्रुखाबाद- करने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों कानपुर अनवरगंज तत्काल प्रभाव से का का निरस्तीकरण के क्रम में ट्रैन २४.०१.२५ तक बर्राजपुर-बर्राजपुर- नंबर ६४१०२ दिल्ली-अलीगढ प्रारंभिक कानपुर अनवरगंज के मध्य निरस्त स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने की तिथि रहेगी। ट्रेन नंबर १५०३७ कानपुर २६ जनवरी को एवं लिंक रेक ६४१०१ अनवरगंज-कासगंज तत्काल प्रभाव से अलीगढ़-दिल्ली प्रारंभिक स्टेशन से २४ जनवरी तक बर्राजपुर कानपुर यात्रा प्रारंभ करने की तिथि २७ जनवरी अनवरगंज-बर्राजपुर के मध्य निरस्त को निरस्त रहेगी।ट्रेनों के नियंत्रण के रहेगी। १५०४० कासगंज-कानपुर क्रम में ट्रेन नंबर ०२५६३ बरोनी-नई अनवरगंज तत्काल प्रभाव से २४ दिल्ली प्रारंभिक स्टेशन से यात्रा प्रारंभ जनवरी तक बर्राजपुर-बर्राजपुर-कानपुर करने की तिथि २६ जनवरी को उत्तर अनवरगंज के मध्य निरस्त, १५०३९ मध्य रेलवे में ३० मिनट नियंत्रित कानपुर अनवरगंज-कासगंज तत्काल का चलाई जाएगी। १२५६५ दरभंगा-प्रभाव से २४ जनवरी तक बर्राजपुर नई दिल्ली प्रारंभिक स्टेशन से यात्रा कानपुर अनवरगंज-बर्राजपुर के मध्य प्रारंभ करने की तिथि २६ जनवरी को निरस्त, १५०३८ कासगँज-कानपुर उत्तर मध्य रेलवे में ३५ मिनट नियंत्रित अनवरगंज २४ जनवरी तक बर्राजपुर- का चलाई जाएगी और १२५५५ गोरखपर-भटिंडा प्रारंभिक स्टेशन से प्रयागराजके नौ स्टेशनोंसे दिशावार यात्रा प्रारंभ करने की तिथि २६ जनवरी

स्वास्थ्य महकमा रहा अलर्ट, बनाया सेफ हाउस महाकुंभ में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रीमण्डल के दिन बेलथरा रोड से ००.१५ बजे, मऊ सदस्यों शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक से ०१.०५ बजे, औड़िहार से ०२.०६ को देखते हुए सभी अस्थायी अस्पतालों बजे. वाराणसी सिटी से ०३.१० बजे, को अलर्ट किया गया था। मेला क्षेत्र के वाराणसी से ०३.३० बजे, बनारस से केन्द्रीय अस्पताल, दो सब सेंट्रल अस्पताल, ८ सेक्टर अस्पताल सहित शहर के स्थायी अस्पतालों को ४८ घंटे के लिए हंडियाखास से ०५.२७ बजे छूटकर अलर्ट किया गया है। अरैल के समीप लगभग दो दर्जन एम्बुलेंस की तैनाती की गयी है। अरैल के २५ बेड के सब सेंटर २८, २९, ३०, ३१ जनवरी, ०२, ०३ हास्पिटल को सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस किया गया है। अपर निदेशक से ०७.४५ बजे प्रस्थान कर हंडिया स्वास्थ्य सहित अन्य चिकित्साधिकारियों ने अस्पातलों का दौरा किया। वहां की ०८.५१ बजे, माधोसिंह से ०९.०५ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य बजे, बनारस से ०९.५५ बजे, वाराणसी सविधाओं को परखा।

महाकुम्भ की ख़बरें पृष्ठ ११ पर भी <u>देखें</u>

प्रयागराज रेल मण्डल चलायेगा हर चार मिनटपर एक ट्रेन, एक श्रद्धालुओं के सभी रिकार्ड ध्वस्त हो रहे हैं। मकर संक्रांति के पहले अमृत दिनमें १५० से अधिक स्पेशल टेनोंका संचालन होगा नया कीर्तिमान

म्रान के दिन लगभग ३.५ करोड़ से महाकुम्भ २०२५ की प्रयागराज में लिए एक कीर्तिमान होगा। मौनी अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया. जिनके लिए प्रयागराज रेल मण्डल ने १०१ मेला स्पेशल ट्रेनें चलानी गई थी। जो अपने आप में एक रिकार्ड था। इसी अन्रूप रेल प्रशासन महाकम्भ के सबसे बड़े अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या के लिए भी तैयारियां कर रहा है। मेला प्राधिकरण का अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन १० करोड से अधिक श्रद्धाल संगम म्रान करेंगे। जिनमें से दस से बीस फीसदी श्रद्धालुओं के ट्रेन से आने का अनुमान है। जिनके लिए प्रयागराज रेल मण्डल ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। ट्रेनों के अवागमन के साथ यात्रियों के ठहरने और सही ट्रेनों तक पहुंचने के लिए जो अपने आप में भारतीय रेलवे के करना अपने आप में एक कीर्तिमान कलर कोडिंग के आधार पर टिकट और अतिरिक्त आश्रय स्थलों का प्रबंध

शुरूआत १३ जनवरी को पौष पूर्णिमा अमावस्या के स्नान पर्व के लिए रेलवे के स्नान के साथ हो गई है। मकर की तैयारियों के बारे में उत्तर मध्य की संख्या के अनुमान से मौनी संक्रांति के दिन महाकुम्भ के पहले रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमृत स्नान पर्व पर उम्मीद से अधिक अमित मालवीय ने कहा कि मौनी लगभग ३.५ करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र अमावस्या के दिन प्रयागराज रेलवे संगम में स्नान किया था। अब तक ९ १५० से अधिक मेला स्पेशल टेनें करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुम्भ चलाएगा। सबसे अधिक ट्रेने में स्नान कर चुके है। इसी क्रम में प्रयागराज जंक्शन से चलेंगी, इसके महाकुम्भ के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अलावा मण्डल के अन्य स्टेशनों से अमावस्या के लिए तैयारियां पूरे जोर दिशावार स्पेशल ट्रेनों का संचालन पर है। प्रयागराज रेल मण्डल ने भी किया जाएगा। इसके अलावा नियमित मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की ट्रेनों का संचालन भी समयानुसार संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि १५० से अधिक मेला स्पेशल टेन किसी स्टेशन से एक दिन में १५० चलाने की योजना तैयार कर ली है से अधिक स्पेशल टेनों का संचालन

होगा। कुम्भ २०१९ में मौनी अमावस्या मिनट पर एक ट्रेन का संचालन होगा। के पर्व पर लगभग ८५ मेला स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन हुआ था। उन्होंने बताया कि प्रयागराज रेलवे से चलने वाली नियमित ट्रेनों और स्पेशल ट्रेनों अमावस्या के दिन लगभग हर ४

०३.५० बजे, माधोसिंह से ०४.३५ बजे,

ज्ञानपुर रोड से ०४.५७ बजे तथा

झुसी ०६.०० बजे पहुंचेगी। ०५००३

झूसी-गोरखपुर कुम्भ मेला स्पेशल ट्रेन

सूचना-मेरा इण्टर परीक्षा सन् 2021 अनुक्रमांक 216417896 का अंकपत्र व सह प्रमाणपत्र वास्तव में खो गया है। हिमांशू सिंह पूत्र-मनोज कुमार प्रभाकर पता-बरेन्द्र, गोरिगों हण्डिया-प्रयागराज

वाद पदों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन् (आदेश 5, नियम 1 और 5) यः अपर सिविल जज (व0श्रे0) कक्ष सं. 1 धानः इलाहाबाद जिलाः डलाहाबाद

सन्: 2019 ई0 गरी: भागतीय स्टेट बैंक बनामः अजित सिंह व अन्य प्रतिवादी को **ाजीत सिंह** उम्र लगभग 36 वर्ष , पुत्र धारा सिंह ,

नेवासी - फ्लैट नं. 204, 28ए, कैलाश अपार्टमेन्ट, जवाहर लाल नेहरू रोड, सिविल चूँकि वादी ने आपके खिलाप

थन वसूली के लिये वाद सस्बित किया है मतएव आपको एतद् द्वारा आहूत किया जाता कि आप या स्वयं ऐसे अधिवक्ता द्वारा जो वि सम्यकरुपेण अनदिष्ट है और वाद सम्बन्धी सब सारबान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है य जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है। 2025 वे माह 01 के दिवस को 17 बजे 10,00 आहत दावे का उत्तर देने के लिए इस न्यायालय मे उपसजात हो और आपको यह निर्देश दिय जाता है कि आप उस दिन ऐसे सब दस्तावेजों को पेश करे जिनका कि अपनी प्रतिरक्षा वे समर्थन में सहारा लेने का आपका आशय है।

कि पूर्णवर्णित दिवस को आपको उपसजाति चूव होने पर वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा।

आपको यह सचना दी जाती है

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मूहर सहित आज 20.12.2024 के दिवस को

- आपको यह अशंका है कि आपके साक्षीग अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होगें तो आप किसी साक्षी को हाजिर के लिये मजबर करने के लियं और किसी दस्तावेज के पेशी कराने के लिये जिसे कि पेश करने की ऐसी समाहत कराने के लिये आपको अधिकार है. सम्मन इस न्यायालय मे आवेदन करने पर और आवश्यक व्यय का निक्षेप

- यदि आप दावे को स्वीकारोत्तर करते हो तं गापको धन के खर्चों के सहित इस न्यायालय में जमा कर देना चाहिए कि ऐसी आज्ञाप्ति क निष्पादन जो कि आपने व्यक्तित्व या सम्पत्ति या **सचना**-मेरा हाइस्कुल परीक्षा वर्ष 2012 अनुक्रमांक 3457449 का अंकपत्र सह प्रमाण पत्र खो गया है अनुराग कुमार प्रजापति पुत्र-शेषमणि

(b.) Diluted

**सूचना**-मेरा हाईस्कूल परीक्षा सन् 2012 अनुक्रमांक 2141025 एवं इण्टर परीक्षा सन 2014 अनुक्रमांक 1613000 ਨਾ ਮੁੰਨਪੁਕ ਰ ਦਫ प्रमाणपत्र वास्तव में खो गया है। नगीना बिन्द पुत्री-इन्द्रपाल बिन्द पता-पिड़ौना उग्रसेनपुर प्रयागराज

प्रजॉपति ग्राम विरधौलपर मंगरा

बादशाहपुर जौनपुर

class 9A of St. Joseph's College, Prayagraj. His father's name is wrong in the school ecords. It is "G.K. Srivastava" instead, it should be "Gonal Krishna Srivastava" and hence 'm applying for correction in school records. Gopal Krishna Srivastava S/o Late Prem Chandra Srivastava R/o 149E. I/1 Chakiya Prayagraj

TRIVENI No.1, Kanpur Road, Prayagraj- 211001 CIN: L26101UP1971PLC003491 Email: akd@triveniglassltd.com Website: www.triveniglassltd.com Tel: 0532-2407325

Standalone Statement of Un Audited financial results for the Quarter ended 31st December, 2024

For the Quarter **Particulars** ended 31.12.2024 ended 31.12.2023 ended 31.03.2024 Un Audited 75.19 456.48 76.16 Total Income from operations Net Profit/ (Loss) from ordinary activities 17.90 15.94 287.23 before tax Net Profit/ (Loss) for the period after tax (before Exceptional items) 17.90 15.94 287.23 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) Other Comprehensive Income 1.261.94 1,261.94 4.408.75 Paid-up equity share capital 4,404.00 Reserves (excluding Revaluation Reserves 4,404.00 4,404.00 as shown in the balance sheet of previous year) Earnings per share (for continued operations 0.13 0.14 2.28 0.13

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 duly approved by the Board of Directors in their meeting held on 22.01, 2025. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and also on the website of the company (www.triveniglassItd.com).

J. K. Agrawal Managing Director

# जलकर विभाग, नगर निगम, प्रयागराज

कार्यालय : अधिशाषी अभियन्ता जोन-०६ खुसरोबाग, प्रयागराज Email :xenjk6jkprayagraj@gmail.com

पत्रांक डी/2024/ज0क0वि0/जोन-06/2024-25

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम प्रयागराज सीमान्तर्गत के समस्त प्राइवेट सेप्टिंग टैंक डि-स्लजिंग मशीन के निजी संचालक जिनके द्वारा महाकुम्भ मेला एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों के सोक पिट/सेप्टिक टैंक एवं अन्य स्थलों से मल/स्तज निकाला जाता है, वह निकाले गये मल/स्तज को किसी भी सार्वजनिक स्थल/नाले/नालियों में न डालकर निम्नानुसार निर्मित FSTP CO-TREATMENT प्लांट पर ही निस्तारण करना सुनिश्चित करें-

	·						
क्रम सं0	प्लांट का नाम एवं स्थल	ांट का नाम एवं स्थल क्षामता सम्बन्धित विभाग नाम एवं पता		सम्पर्क सूत्र			
1	FSTP CO-TREATENT बक्शी बांध सलोरी	50 KLD	जलकर विभाग नगर निगम खुशरोबाग प्रयागराज	मो0नं0 9415125023, 6392962075, 9415125241			
2	FSTP CO-TREATENT छतनाग झूंसी	50 KLD	30प्र0 जल निगम (नगरीय) कीडगंज, प्रयागराज	मो0नं0 8853802222, 9473942660, 9532501187			
3	FSTP CO-TREATENT अरैल नैनी	100 KLD	30प्र0 जल निगम (नगरीय) कीडगंज, प्रयागराज	मो0नं0 9532501183, 7678846801,9473942660			

उपरोक्तानुसार समस्त प्राइवेट ऑपरेटर अवश्य ध्यान रखें कि उक्त निर्धारित प्लांट के अलावा मल/स्लज किसी भी सार्वजनिक स्थल/नालों/नालियों में गिराते हुए पकड़े जाते हैं तो ''नगर निगम प्रयागराज फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि 2023'' में परिशिष्ट-8 क्र0सं0 6 (क) के खण्ड संख्या 6-29 के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिदिन रू० 5000.00 जुर्माना वसूल किया जायेगा तथा लगातार उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ वाहन जब्ती की कार्यवाही भी किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित प्राइवेट ऑपरेटर स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतः नगर निगम प्रयागराज के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि अपने-अपने घरों के सेप्टिंक टैंकों को ससमय खाली कराने तथा किसी भी प्राइवेट ऑपरेटरों को कहीं खुले में मल/स्लज गिराते हुए पाये

जाते हैं, तो उपरोक्त सारणी में अंकित पते/दूरभाष पर सम्पर्क करने का कष्ट करें तथा वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। (अधिशाषी अभियन्ता/नोडल अधिकारी) फीकल स्लज एण्ड सेप्टेज मैनेजमेन्ट

जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज

पी.आर.बी. अधिनियमके अन्तर्गत समाचारके चयनके लिए जितेन्द्र सिंह जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद जनपद न्यायालय प्रयागराजके अधीन होगा। 

कर लिया गया है।

ज्ञान मण्डल प्राइवेट लिमिटेडके

लिए जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा

ज्ञानमण्डल यंत्रालय, ३ लीडर

रोड, प्रयागराजसे मुद्रित तथा

लीडर बिल्डिंग, ३ लीडर रोड,

सम्पादक:शार्दूल विक्रम गुप्त

स्थानीय सम्पादक-जितेन्द्र सिंह

वाराणसी : सन्त कबीर मार्ग

लखनऊ : १, जापलिंग रोड

आगरा : महात्मा गांधी रोड

: फ्रेजर रोड

जमशेदपुर: कालीमाटी रोड

धनबाद : कतरास रोड

वर्ष-१३ प्.सं. (१०७२९)

रजिस्ट्रेशन संख्या-५९७४१/९५

दूरभाष: २६१५०८०,२६१६१५४

E-mail:ajalld@yahoo.com

ajalld@rediffmail.com

aidaily86@gmail.com

: रोड नं. ३, परसाखेड़ा

: नाम्कुम इंडस्ट्रियल एरिया


प्रयागराज से प्रकाशित।

गोरखपुर : बैंक रोड

कानपुर : बांसमण्डी

बरेली

रांची





स्टेनलेस स्टील थालियों एवं कपड़े की के बैग वितरित किए है। श्रीमती चेतना थैलियों का वितरण किया। उत्तर मध्य जोशी और महिला संघटन ने इस्कान रेलवे महिला कल्याण की अध्यक्षा श्रीमती पंडाल में रसोई बनाने तथा परोसने की चेतना जोशी, सचिव श्रीमती ऋचा वर्मा, सेवा की। मुख्य पर्यावरण प्रबन्धक ने श्रीमती तरुणा प्रकाश, श्रीमती प्रतिभा कदम, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न श्रीमती संतोष कुमारी बाजपेई, श्रीमती सरिता करने की सलाह दी। समाजसेवी संस्थान कदम और पर्यावरण अनुभाग उत्तर मध्य पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ रेलवे मुख्यालय ने प्लस्टिक मुक्त इको से प्राप्त थालियाँ तथा थैलियों का वितरण कुंभ को बढ़ावा देने के लिए इस्कान, प्रदुषण रोकने में काफी मददगार साबित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, आर्ट आफ लिविंग हो रहा है ६ इस गतिविधि में शिवाजी सेंटर एवं रामभद्राचार्य आश्रम को कुल कदम (मुख्य पर्यावरण एवं गृह व्यवस्था २००० स्टील प्लेट और कपड़े के बैग प्रबन्धक उत्तर मध्य रेलवे), संतोष बांटे। स्टील प्लेटों को बांटने का मकसद बाजपेयी (कार्य अध्ययन अधिकारी) सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को अखिलेश कुमार सिंह आदि रेलवे कम करना है। इस्कान की तरफ से मधु अधिकारी शामिल रहे। महाकुंभ के पंडित दास अध्यक्ष अक्षयपात्र, चंचलापति अवसर पर यात्रियों की सविधा के लिए दास वाइस चेयरमैन अक्षयपत्र एवं उत्तर मध्य रेलवे की ओर से चलाई कंजलोचन कृष्ण दास एवं आर्ट आफ जा रही अतिरिक्त स्पेशल टेनों की सफाई.

लिविंग की तरफ से राम गोपाल शर्मा एवं यात्री बाड़ों का रखरखाव, बायो टॉयलेट परमानंद मौजूद रहे। अब तक पर्यावरण आदि व्यवस्था का भी सचारू रूप से अनुभाग उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ने चलने हेतु प्रयागराज स्टेशन का निरीक्षण

कर देने पर इसे न्यायालय से ले सकते हैं।

दोनो के खिलाफ हो परिवर्जित हो जाय।